


# कीवा को-एंजाइम क्यू१० ड्रॉप्स

KEVA




को-एंजाइम क्यू१०  
(**CoQ10**) एक  
ऐसा पदार्थ है जो  
शरीर में प्राकृतिक  
रूप से पाया जाता  
है और भोजन को  
ऊर्जा में बदलने  
में मदद करता है




**CoQ10** शरीर में  
लगभग हर  
कोशिका में पाया  
जाता है, और यह  
एक शक्तिशाली  
एंटीऑक्सीडेंट है

## COENZYME Q10



**Coenzyme Q10** शरीर में कई अंगों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उचित कार्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण विटामिन जैसा पदार्थ है। यह कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। **Coenzyme Q10** में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होती है। हार्ट फेलियर, उच्च रक्तचाप, मसूड़ों की बीमारी, पार्किंसंस रोग, रक्त संक्रमण, मांसपेशियों के कुछ रोगों और एचआईवी संक्रमण जैसे बीमारियों वाले लोगों में कोएंजाइम **Q10** का स्तर कम हो सकता है।

# शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडेंट



एंटीऑक्सिडेंट, जैसे **CoQ10**, मुक्त कणों को बेअसर कर सकते हैं और हृदय रोग और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की संख्या को रोक सकते हैं


# ऊर्जा उत्पादन

KEVA

कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए के लिए सहायक कारक के रूप में कार्य करता है



# COQ10 कोशिकाओं के कार्य लिए आवश्यक है



- **CoQ10** का स्तर उम्र के साथ कम होता जाता है
- यह कैंसर, कुछ जनन विकार, मधुमेह, हृदय रोग, एचआईवी / एड्स, मांसपेशियों में दुर्विकास और कैंसर के रोग वाले लोगों में कम हो सकता है
- कुछ दवाओं के सेवन से **CoQ10** का स्तर भी कम हो सकता है

**CoQ10 सप्लीमेंट लेने से शरीर में CoQ10 को बढ़ाया जा सकता है**

# COQ10 दिल से संबंधित विकारों में सहायक हो सकता है



हाल के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि **CoQ10** दिल से संबंधित स्थितियों में मदद कर सकता है, क्योंकि यह कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन में सुधार कर सकता है, रक्त के जमाव को रोक सकता है, और एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है

# KEVA



कीवा को-एंजाइम क्यू१०  
ड्रॉप्स में को-एंजाइम  
क्यू१० (**ubiquinone**)  
इसके मुख्य घटक के रूप  
में होता है। इसका  
प्राथमिक कार्य भोजन और  
ऑक्सीजन को ऊर्जा में  
बदलने में मदद करना है।  
यह एक शक्तिशाली  
एंटीऑक्सिडेंट के रूप में  
भी काम करता है और  
नुकसान शरीर को नुकसान  
पहंचाने वाले मुक्त कणों  
को बेअसर करने में मदद  
कर सकता है



# KEVA



- स्वस्थ हृदय प्रणाली के लिए पूर्ण पोषक तत्व
- कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन में सहायक

KEVA

स्वास्थ्य लाभ



- दिल के विकारों को दूर करता है
- उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है
  - उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कर सकता है
- व्यायाम के कारण सीने में दर्द में मदद कर सकता है





प्रतिरक्षा प्रणाली  
को बेहतर बनाने से  
संबंधित  
कोशिकाओं के  
कार्य में सुधार कर  
सकता है, शरीर को  
बीमारियों और  
संक्रमणों का विरोध  
करने या लड़ने में  
मदद करता है





- ऊर्जा को बढ़ाता है
- थकावट को दूर करता है
- कमजोरी, थकान और तनाव को कम कर सकता है



# CO ENZYME Q10 कई तरह के दिमागी रोगों में सहायता कर सकता है

KEVA



- अल्जाइमर रोग के प्रभाव को धीमा कर सकता है
- नसों को कार्यशील बना सकता है
- याददाश्त और एकाग्रता बढ़ा सकता है
- मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर की गतिविधि बढ़ा सकता है



माइग्रेन सिरदर्द से बचने में मदद मिल सकती है



यह कैंसर की थकावट और अन्य कीमोथेरेपी दुष्प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है



अस्थमा, मधुमेह, स्तन कैंसर, हंटिंग्टन रोग में भी मदद कर सकता है



कीवा को-एंजाइम क्यू१० ड्रॉप्स  
हलाल और कोशर प्रमाणित है और जीएमपी  
दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है



# सेवन का तरीका

KEVA



- सुबह और शाम 10 बूँदें खाली पेट या भोजन से आधे घंटे पहले लें
- बेहतर परिणाम के लिए 6-12 महीने तक जारी रखें

# धन्यवाद

नोट: यह किसी भी बीमारी का इलाज, रोकथाम और इलाज करने के लिए नहीं है। कृपया अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श करें।